

दयानन्द

लेखक

सन्तराम, बी० ए०



प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

पहली बार]

१९३०

[मूल्य ॥॥] अने